



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2022

चैत्र 10, 1944 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 233/ग्यारह-2-22-9(47)-17-टी0सी0-182-उ0प्र0अधि0-1-2017-आदेश (233)-2022

लखनऊ, 31 मार्च, 2022

अधिसूचना

प0आ0-71

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 10 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, अधिसूचना संख्या क0नि0-2-809/ग्यारह-9(47)-17-उ0प्र0एक्ट-1-2017-आदेश-(37)-2019, दिनांक 28 मई, 2019, में अग्रतर निम्नलिखित संशोधन करती हैं, अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, क्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियाँ बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-

4.	6815	फलाई ऐश की ईंटें या फलाई ऐश जिसमें कुल मिलाकर 90 प्रतिशत या इससे अधिक फलाई ऐश हो; फलाई ऐश ब्लॉक्स
5.	6901 00 10	सिलिकामय जीवाश्मी अवचूर्ण या वैसी ही सिलिकामय मिट्टी की ईंटें
6.	6904 10 00	निर्माणी ईंटें
7.	6905 10 00	फर्श की या छत की टाइलें

2-यह अधिसूचना तारीख 1 अप्रैल, 2022 को प्रवृत्त होगी।

आज्ञा से,

संजीव मित्तल,

अपर मुख्य सचिव।

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 233 / XI-2-22-9(47)-17-T.C.182-U.P.Act-1-2017-Order-(233)-2022, dated March 31, 2022 :

No. 233 / XI-2-22-9(47)-17-T.C.182-U.P.Act-1-2017-Order-(233)-2022
Dated Lucknow, March 31, 2022

IN exercise of the powers conferred under the proviso to sub-section (1) of section 10 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification no. KA.NI.-2-809/XI-9(47)-17-U.P.Act-1-2017-Order- (37)-2019, dated May 28, 2019, namely :-

In the said notification, in the Table, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be *inserted*, namely : -

"4.	6815	Fly ash bricks or fly ash aggregate with 90 percent or more fly ash content; Fly ash blocks
5.	6901 00 10	Bricks of fossil meals or similar siliceous earths
6.	6904 10 00	Building bricks
7.	6905 10 00	Earthen or roofing tiles".

2. This notification shall come into force on the 1st day of April, 2022.

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 20 राजपत्र-2022-(31)-599 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।

पी०एस०यू०पी०-ए०पी० 3 सा० राज्य कर-2022-(32)-1000 प्रतियां (कम्प्यूटर/टी०/ऑफसेट)।